

**संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा - मुख्य परीक्षा**  
**(Download) UPSC Mains 2017 General Studies Question**  
**Paper:**  
**सामान्य अध्ययन-I (भारतीय संस्कृति एवं विरासत, विश्व एवं समाज**  
**का इतिहास और भूगोल )**

---

---

**Exam Name:** UPSC IAS Mains General Studies (Paper-1)

**Year:** 2017

**Exam Date:** 30-10-2017

1. आप इस विचार को, की गुप्त कालीन सिक्का शास्त्रीय कला की उत्कृष्टता का स्तर बाद के समय में नितांत दर्शनीय नहीं है, किस प्रकार सही करेंगे ? (150 शब्द )
2. स्पष्ट कीजिये की मध्य- अठारहवीं शताब्दी का भारत विखंडित राजतन्त्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था | (150 शब्द )
3. क्या कारण था की उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक आते- आते ' नरमदलीय ' अपनी घोषित विचारधारा एव राजनितिक लक्ष्यों के प्रति राष्ट्र के विश्वास को जगाने असफल हो गए थे ? (150 शब्द )
4. मलय प्रायद्वीप में उपनिवेशन उन्मूलन प्रक्रम में सत्रिहित क्या-क्या समस्याएं थी ? (150 शब्द )
5. 'नासा' का जूनो मिशन पृथ्वी की उत्पादि एव विकास को समझने में किस प्रकार सहायता करता है ? (150 शब्द )
6. "प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद, कोयला खनन विकास के लिए अभी भी अपरिहार्य है विवेचना कीजिये| (150 शब्द )
7. दलहन की कृषि के लाभों का उल्लेख कीजिये जिसके कारन सयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2016 को अंतगरष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था। (150 शब्द )

8. हिमांक-मंडल (क्रायोस्फेयर) वैश्विक जलवायु को प्रभावित करता है ? (150 शब्द)
9. भारत की विविधता के सन्दर्भ में, क्या यह खा जा सकता है की राज्यों की अपेक्षा प्रदेश सांस्कृतिक इकाइयों को रूप प्रदान करते है ? अपने दृष्टिकोण के लिए उदहारण सहित कारण बताइये। (150 शब्द)
10. स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए, राज्य द्वारा की गई दो मुख्य विधिक पहलें क्या है। (150 शब्द)
11. सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना न केवल अति प्राचीन समय से ही भारतीय समाज का एक रोचक अभिलक्षण है, अपितु वर्तमान में भी यह में भी यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सविस्तार स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द)
12. परिक्षण कीजिये की औपनिवेशिक भारत में पारम्परिक कारीगरी उद्योग के पतन ने किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया। (250 शब्द)
13. पिछली शताब्दी के तीसरे दशक से भारतीय स्वतंत्रता की स्वप्न दृष्टि के साथ सम्बद्ध हो गए नए उद्देश्यों को उजागर कीजिये। (250 शब्द)
14. महासागरीय लवणता में विभिन्ताओं के कारण बताइये तथा इसके बहु-आयामी प्रभावों की विवेचना कीजिये। (250 शब्द)
15. पेट्रोलियम रिफाइनरिया आवश्यक रूप से कच्चा तेल उत्पादक क्षेत्रों के समीप अवस्थित नहीं है, विशेषकर अनेक विकासशील देशों में। इसके निहितार्थों को स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द)
16. भारत में बाढ़ों को सिंचाई की और सभी मौसम में अंतर्देशीय नौसंचालन के एक धारणिया स्रोत में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है? (250 शब्द)
17. मानसून एशिया में रहने वाली संसार की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या के भरण-पोषण में सफल मानसून जलवायु को क्या अभिलक्षण समनुदेशित किये जा सकते है ? (250 शब्द)

18. आधुनिक भारत में, महिलाओ से सम्बंधित प्रश्न 19वि शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन के भाग के रूप में उठे थे  
| उस अवधि में महिलाओ से संबंध मुख्य मुद्दे और विवाद क्या थे? (250 शब्द)
19. स्वतंत्र भारत में धार्मिकता किस प्रकार सम्प्रदायकता में रूपांतरित हो गई, इसका एक उदहारण प्रस्तुत करते हुए धार्मिकता एव सम्प्रदायकता के मध्य विभेदन की जिये | (250 शब्द)
20. "सुचना प्रौधिगिकी केन्द्रो के रूप में की संवृद्धि ने रोजगार के नए मार्ग खोल दिए है.  
परन्तु साथमें नै समस्याएं भी पैदा कर दी है  
| "उद्धरणों सहित इस कथन की पुष्टि कीजिये | (250 शब्द)